



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 689 राँची, मंगलवार,

27 अगस्त, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

19 अगस्त, 2019

संख्या-5/आरोप-1-76/2016-16405 (HRMS)-- सुश्री सरिता दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-693/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा-सह-अवर निबंधक पदाधिकारी, जामताड़ा संप्रति बिशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-32/रा०, दिनांक 07.06.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मौजा-बुटबेरिया, थाना नं०-17 के खाता सं०-24, रकबा 33.12 एकड़ जमीन जो मुकर्रर स्वत्व की जमीन थी एवं अविक्रयशील थी, को अंचल अधिकारी, जामताड़ा के प्रतिवेदन को आधार बनाकर अहस्तान्तरणीय भूमि का हस्तान्तरण निबंधित केवाला के माध्यम करने, संथाल परगना कास्त्करी अधिनियम, 1949 की धारा-20 का उल्लंघन करने, बिना तथ्यों की जाँच किये निबंधित केवाला के माध्यम से उक्त खाते की जमीन बिक्री की अनुमति प्रदान करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-6714, दिनांक 04.08.2016 द्वारा सुश्री दास से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में सुश्री दास के पत्रांक-1736, दिनांक 26.08.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। सुश्री दास के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8915,

दिनांक 18.10.2016 द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा से मंतव्य की माँग की गयी। सुश्री दास के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-1065/रा०, दिनांक 18.11.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें सुश्री दास का स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

सुश्री दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, जामताड़ा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3797, दिनांक 21.03.2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, के पत्रांक-186, दिनांक 03.07.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में सुश्री दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाया गया।

सुश्री दास के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, सुश्री दास के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No. | Decision of the Competent authority                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1      | SARITA DAS<br>BHR/BAS/3125  | सुश्री सरिता दास, झा०प्र०से०, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा-सह-अवर निबंधक पदाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----